



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार 19 जून, 2020

ज्येष्ठ 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 52/2020/824 ई-2/तेरह-2020-19-2020

लखनऊ, 19 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप/विज्ञप्ति

सा०प०नि०-33

उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति के गठन विषयक विज्ञप्ति संख्या 16/2017/429 ई-2/तेरह-2017-19-2010, दिनांक 12 मई, 2017 को अवक्रमित करते हुए, उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति, 1965 (यथासंशोधित) के नियम 3, 5 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 3 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, शीरे के संग्रहण, सम्भरण (आपूर्ति) तथा श्रेणीकरण से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिए इस कार्यालय-ज्ञाप के प्रकाशित होने के दिनांक से, एक परामर्श समिति संगठित करते हैं। उक्त समिति में निम्नांकित व्यक्ति होंगे:-

1	शीरा नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश	(पदेन अध्यक्ष)
2	मुख्यालय पर नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जिनके द्वारा शीरा सम्बन्धी कार्य देखा जा रहा हो।	पदेन सचिव
3	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप निदेशक, उद्योग के पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य

4	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप गन्ना आयुक्त के पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
5	उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि।	महासचिव, यू0पी0 शुगर मिल्स एसोसियेशन, 403 चिंटल हाउस, 16 स्टेशन रोड, लखनऊ।
6	उत्तर प्रदेश आसवक संघ का एक प्रतिनिधि।	निदेशक (आपरेसन्स), मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर।
7	उत्तर प्रदेश अल्कोहल बेस्ड इण्ड, डेवलेपमेंट एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।	जनरल सेक्रेटरी, यूपी आबिदा (uttar pradesh alcohol based industries development association) पलैट नं0 डब्लू डब्लू-01 रोहताश गोल्फलिंग अपार्टमेंट, 98, पार्क रोड, लखनऊ-226001
8	उत्तर प्रदेश गढई ढलाई उद्योग यीस्ट, तम्बाकू तथा पशु आहार निर्माताओं का एक प्रतिनिधि।	डायरेक्टर्स मेसर्स कपिला कृषि उद्योग लि0 पता: 108/363, प्रथम तल, जी0टी0 रोड, राम कृष्ण नगर, कानपुर-208012
9	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लि0 अथवा उसका प्रतिनिधि जो सलाहाकार पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप प्रबन्ध निदेशक पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य

आज्ञा से,
संजय आर भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 85 राजपत्र-2020-(177)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 आबकारी-2020-(178)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।